

# EKAM LEASING AND FINANCE CO. LIMITED

REGD OFFICE: No. 11, Rani Jhansi Road, (Motia Khan), M M Road, New Delhi -110055 Tel No. : 011-23528015 Fax No. : 011-23528015  
E-mail : ekam.leasing1@gmail.com, info@ekamleasing.com, Website : www.ekamleasing.com  
CIN No.: L74899DL1993PLC055697

To,  
Listing Department  
Bombay Stock Exchange Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Mumbai-400001

Date: 26/08/2021

## BSE Scrip Code No.: 530581

### Sub: Submission of Newspaper Clipping for information regarding 28<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company to be held through Video Conferencing/Other Audio Visual Means.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in Compliance with General Circular No. 20/2020 dated 5<sup>th</sup> May, 2020 [read with Circular Nos. 14/2020 dated 8<sup>th</sup> April, 2020, 17/2020 dated 13<sup>th</sup> April, 2020 and 02/2021 dated 13<sup>th</sup> January, 2021] ("MCA Circulars") and also the Circular dated 12<sup>th</sup> May, 2020 and 15<sup>th</sup> January, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), please find enclosed herewith Newspaper Clipping for giving public notice to the members for intimating that the 28<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, 27<sup>th</sup> September, 2021 at 12:00 P.M. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means published in the "THE FINANCIAL EXPRESS" (English Edition) and "HARIBHOOMI" (Hindi Edition) Newspaper dated 26<sup>th</sup> August, 2021.

The above information is also available on the website of the Company at [www.ekamleasing.com](http://www.ekamleasing.com).

This is for your information and records. Kindly acknowledge the receipt of the same.

Thanking You,

For EKAM LEASING AND FINANCE CO. LIMITED

  
MAHAK  
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER



Encl.: as above

FORM NO. URC-2 Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI Pursuant to section 374(b) of the Companies Act, 2013 and Rule 4(1) of the Companies (Amendment) Rules, 2014

indianexpress.com I look at every side before taking a side. Inform your opinion with insightful perspectives.

"IMPORTANT" Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications.

Before the Central Government Registrar of Companies, Kanpur In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Limited Liability Partnership Act, 2008 and rule 17 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009

In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008, Section 13 (3) AND In the matter of M/s Media Connect Wekom LLP having its registered office at 421A, 2nd Floor, Supertech Shopprx Mall, Plot No. 134B, Block C, Sector 61, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, 201307, India

Notice is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make a petition to Registrar of Companies, Kanpur under section 13 (3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its Registered office from the state of "Uttar Pradesh" to the state of "Madhya Pradesh".

For and on behalf of M/s Media Connect Wekom LLP Rajeev Bhatia (DPIN - 01949993) Sd/- (Designated Partner) Date: 25-08-2021 Place: Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh

CIRCLE SASTRA CENTER 1-2, Raghunath Nagar, M.G. Road, Agra Ph. No. 0562-2525895 Fax: 0562-2850131 E-Mail: coagrsamd@pnb.co.in

POSSESSION NOTICE FOR IMMOVABLE PROPERTY [under Rule 8(1)] The Authorized Officer of Punjab National Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with Rule-3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice on the date mentioned against account and stated hereunder calling upon the borrower/guarantor/mortgagor/ Legal hair of guarantor to repay the amount mentioned in the notice being together with further interest at contractual rate on the aforesaid amount and incidental expenses, costs, charges etc. within sixty days from the date of receipt of said notice.

Table with 4 columns: Name of the Borrowers/Guarantors/Branch, Details of the Mortgaged Property, Date of Demand Notice, Amt. Due as per Demand Notice. Includes details for M/s Vansh Deep Kapoor & Sons.

यूनिफाइड बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India POSSESSION NOTICE

Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 WHEREAS, The Authorized Officer of Union Bank of India, Branch: Agra, (Main), under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with Rule-3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, had issued Demand Notices calling upon the Borrowers/Guarantors/ Mortgagors mentioned below to repay the amounts mentioned in the demand notices within 60 days from the date of receipt of the said Notices.

Table with 3 columns: Name of the Borrowers/Guarantors, Description of the Property, Date of Demand Notice. Includes details for Mr. Ravi Kumar Jain S/o Late Radhey Lal Jain & Mrs. Neeru Jain.

यूनिफाइड बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India POSSESSION NOTICE

Whereas, Undersigned being the Authorized Officer of Union Bank of India, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice as mentioned against each account stated herein to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the receipt of the said notice.

Table with 4 columns: Sr. No., Branch Name, Name & Address of Borrower/Guarantor, Description of Immovable Properties, Outstanding Amount. Includes details for Mr. Naresh Shrivastav, Mrs. Rajinder Kaur, Mr. Saravjit Singh, Mr. Vjal Pal Singh, Mr. Jeewan Chandra s/o Ganga Ram.

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड 9-10, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226001 Tel. No. (0522) 2628310, 2283124

SHORT TERM TENDER NOTICE On line e-tenders are invited from manufacturers/ Authorised dealer (as per details given in tender documents) for Lubricant, Centrifugal machine, special grease & experienced parties for implementation of dedicated cloud server to our Federation office.

Bank of Baroda Malkhan Nagar Branch Aligarh

NOTIFICATION General Public is hereby informed that the following original Sale Deeds registration at Aligarh has been reported loss/misplaced 1. Sale Deed executed by Sri Khan Akhtar R/o 4/83, Garib Manjli, Doodhpur Mafi, Pargana & Tehsil Koli, District Aligarh in favour of Smt. Zeenat Ilyas R/o 4/96, Garib Manjli, Doodhpur, pargana & Tehsil Koli, District Aligarh duly registered in the office of Sub-Registrar Aligarh Book No. 1 Khand 2062 on pages 331/352 at Sr. No. 994 on dated 28.02.1999.

CAPITAL TRUST LIMITED (CIN: L65923DL1985PLC195299) 205 Central Mall, Sultanpur, M. G. Road, New Delhi-110030

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Thursday, September 30, 2021 at 09:00 a.m. through Video Conference or Other Audio-Visual Means (OAVM).

As per aforesaid circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for FY 2020-21 has to be sent only by electronic mode to those members whose e-mail id are already registered with the Company's Depositories.

If your email ID is already registered with the Company's Depository, Notice of AGM along with annual report for FY 2020-21 and login details for e-voting shall be sent to your registered email address.

Physical Holding Send a request to Registrar and Share Transfer Agent of the Company, MAS Services Limited at info@maserv.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (self-attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.

Demat Holding Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP. Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if declare by company.

EKAM LEASING AND FINANCE CO. LIMITED CIN: L74899DL1993PLC055697 Regd. Office: No. 11, Rani Jhansi Road, (Motia Khan), M. M. Road New Delhi-110055

PUBLIC NOTICE -28th ANNUAL GENERAL MEETING (Pursuant to MCA General Circular No.20/2020 dated May 5, 2020 & Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021)

This is to inform you that in view of the worldwide outbreak of the COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs has issued General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 (read with Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020 and 02/2021 dated 13th January, 2021) (MCA Circulars) and also the Circular dated 12th May, 2020 & 15th January 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), permitting the companies for holding of Annual General Meetings through Video Conferencing ("VC") facility/other audio visual means ("OAVM").

In the present scenario and in due compliance with the provisions of the Companies Act, 2013("the Act"), aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular the forthcoming 28th Annual General Meeting ("AGM") of M/s Ekam Leasing and Finance Co. Limited ("the Company") will be convened through Video Conferencing ("VC") facility/other audio visual means ("OAVM").

The 28th AGM of the Members of the Company will be held on Monday, 27th September 2021 at 12:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") facility/other audio visual means ("OAVM") provided by the National Securities Depositories Limited ("NSDL") to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM.

Additionally, the Notice of AGM along with Integrated Annual Report of the Company for the Financial Year 2020-21 will be available on the website of the Company at www.ekamleasing.com and also the website of the Bombay Stock Exchange on which the shares of the Company are listed i.e www.bseindia.com.

The Company has entered into agreement with National Securities Depositories Limited (NSDL), authorized e-voting agency, for facilitating voting through electronic means ("remote e-voting") to enable the members to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the AGM as well as for the members who are present at the AGM VC facility/OAVM and wish to cast their vote during AGM, through e-voting system ("e-voting").

The manner of "remote e-voting" and "e-voting" during the AGM for members holding share in physical mode, dematerialization mode and for members who have not registered their email address will be provided in detail in the Notice of the AGM. In case you have any queries or issue regarding remote e-voting/e-voting, you may contact at evoting@nsdl.co.in or call at 1800-2020-990

Members can attend and Participate in the AGM through the VC facility/OAVM only, the details of which will be provided by the Company in the Notice of the Meeting. Accordingly, please note that no provisions has been made to attend and participate in the 28th AGM of the Company in person to ensure the compliances with the directives issued by the government authorities with respect to COVID-19. Members attending the meeting through VC facility/OAVM shall be counted for the purpose of the reckoning the Quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Notice of the AGM along with the Integrated Annual Report 2020-21 will be sent electronically only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar & Share Transfer Agent (RTA) Depositories. As per the MCA Circular and SEBI Circular, no physical copies of the Notice of the AGM along with the Integrated Annual Report will be sent to any Member. Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to follow the process mentioned below for registering their e-mail addresses to receive the Notice of the AGM and Integrated Annual Report electronically and to receive Login credentials:

I. For Members who hold shares in Electronic Form and email address not registered: Members who hold shares in Electronic Form and have not updated their email address are requested to update their e-mail address by writing to the Company's RTA i.e M/s Aiankit Assignments Limited at rtat@aiankit.com. Members are requested to provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) / can also contact to their Depository Participant(s).

II. For Members who hold shares in Physical Form: Members who hold shares in Physical Form and have not updated their email address are requested to update their e-mail address by writing to the Company's RTA i.e M/s Aiankit Assignments Limited at rtat@aiankit.com. Members are requested to provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card)

For Permanent registration of their e-mail address, Members holding shares in demat form are requested to update the same with their Depository Participant ("DPs") and to Register in case the Members are holding shares in Physical Form.

This notice is being issued for the information and benefit of all the shareholders of the Company in Compliance with the applicable circulars of the MCA and SEBI.

Any member in case of any query concerning participation in the Annual General Meeting may write to the company at ekam.leasing1@gmail.com

For All Advertisement Booking Call: 0120-6651214

CAPFIN INDIA LIMITED CIN: L74999DL1992PLC048032 Registered Office: 1C/13, Transport Centre, Rohtak Road, Punjabi Bagh, New Delhi-110035

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company will be convened on Tuesday, 31st August, 2021 at 02.30 P.M., to consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the Quarter/Year ended on 31st March, 2021.

Physical Holding Send a signed request to Registrar and Share Transfer Agent of the Company, Indus Portfolio Private Limited at ip@indusinvest.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (self-attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.

Demat Holding Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP. Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if declare by company.

The Notice of 29th AGM and Annual Report for FY 2020-21 will also be available on Company's website at www.capfinindia.com also on the Stock Exchange website at www.bseindia.com. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of Quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

FORM G (Re-Issue) INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

Table with 2 columns: RELEVANT PARTICULARS, Jaycon Infrastructure Limited. Includes details like Name of the corporate debtor, Date of incorporation, Authority under which corporate debtor is incorporated, etc.

1. Name of the corporate debtor: Jaycon Infrastructure Limited

2. Date of incorporation of corporate debtor: 05th February, 2007

3. Authority under which corporate debtor is incorporated / registered: Registrar of Companies, Chandigarh

4. Corporate Identity number / limited liability identification number of corporate debtor: U70101CH2007PLC030694

5. Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor: Registered Office: House No. 1464 Ground Floor, Sector 43-B Chandigarh- 160047 Corporate Office: Unit 34-36, Tribhuvan Complex, 6/51, Ishwar Nagar, Mathura Road, New Delhi-110065

6. Insolvency commencement date of the corporate debtor: 7th October, 2019

7. Date of invitation of expression of interest: 26th August, 2021 (Fifth Extension- 02nd February, 2021) (Fourth Extension- 03rd October, 2020) (Third Extension- 01st August, 2020) (Second Extension- 04th July, 2020) (First Extension- 06th February, 2020) (Original Date- 04th December, 2019)

8. Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at: The eligibility criteria is mentioned in the detailed Expression of Interest process and can be sought via Email at ip.jayconinfra@gmail.com

9. Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at: Available on the website of IBI (http://ibi.gov.in/legal-framework) or can be obtained via Email at ip.jayconinfra@gmail.com

10. Last date for receipt of expression of interest: 10th September, 2021 (Fifth Extension- 17th February, 2021) (Fourth Extension- 13th October, 2020) (Third Extension- 06th August, 2020) (Second Extension- 19th July, 2020) (First Extension- 21st February, 2020) (Original Date- 19th December, 2019)

11. Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants: 15th September, 2021 (Fifth Extension- 22nd February, 2021) (Fourth Extension- 14th October, 2020) (Third Extension- 07th August, 2020) (Second Extension- 24th July, 2020) (First Extension- 26th February, 2020) (Original Date- 29th December, 2019)

12. Last date for submission of objections to provisional list: 17th September, 2021 (Fifth Extension- 24th February, 2021) (Fourth Extension- 16th October, 2020) (Third Extension- 09th August, 2020) (Second Extension- 26th July, 2020) (First Extension- 28th February, 2020) (Original Date- 3rd January, 2020)

13. Date of issue of final list of prospective resolution applicants: 22nd September, 2021 (Fifth Extension- 01st March, 2021) (Fourth Extension- 17th October, 2020) (Third Extension- 10th August, 2020) (Second Extension- 31st July, 2020) (First Extension- 04th March, 2020) (Original Date- 13th January, 2020)

14. Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants: 17th September, 2021 (Fifth Extension- 24th February, 2021) (Fourth Extension- 16th October, 2020) (Third Extension- 09th August, 2020) (Second Extension- 26th July, 2020) (First Extension- 28th February, 2020) (Original Date- 3rd January, 2020)

15. Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information: The Request for Resolution Plan, Evaluation Matrix, Information Memorandum (IM) and format of Confidentiality Undertaking can be obtained after sending request, addressed to ip.jayconinfra@gmail.com

16. Last date for submission of resolution plans: 17th October, 2021 (Fifth Extension- 26th March, 2021) (Fourth Extension- 31st October, 2020) (Third Extension- 24th August, 2020) (Second Extension- 10th March, 2020) (First Extension- 14th March, 2020) (Original Date- 02nd February, 2020)

17. Manner of submitting resolution plans to resolution professional: Through Speed post / registered post or by hand in a sealed cover. Addressed to: Mandeep Gujral, SCO-818, 1st Floor, Above YES Bank, NAC Road, Manimajra, Chandigarh-160101

18. Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval: 21st November, 2021 (Fifth Extension- 23rd April, 2021) (Fourth Extension- 03rd October, 2020) (Third Extension- 08th September, 2020) (Second Extension- 27th August, 2020) (First Extension- 19th March, 2020) (Original Date- 20th March, 2020)

19. Name and registration number of the resolution professional: Mandeep Gujral IBI/IPA-001/IP-P00507/2017-18/10908

20. Name, Address and e-mail of the resolution professional, as registered with the Board: Mandeep Gujral, House No. 3073, Sector 46-C, Chandigarh-160047 mandeepgujralip@gmail.com

21. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional: Mandeep Gujral SCO-818, 1st Floor, Above YES Bank, NAC Road, Manimajra, Chandigarh-160101

22. Further Details are available at or with: Mandeep Gujral Resolution Professional ip.jayconinfra@gmail.com

23. Date of publication of Form G: 26th August, 2021 (Fifth Extension- 02nd February, 2021) (Fourth Extension- 03rd October, 2020) (Third Extension- 01st August, 2020) (Second Extension- 04th July, 2020) (First Extension- 06th February, 2020) (Original Date- 04th December, 2019)

Notes: 1. All EOI received will be reviewed by the RP as well as COC and thereafter further information/documents related to the process will be provided to the shortlisted participants. The RP/COC shall have the discretion to change the criteria for the EOI at any point of time. 2. IRP/RP/COC reserves the right to cancel or modify the process/application without assigning any reason and without any liability whatsoever.

